

Winsome Yarns Limited

Regd. Office : Basement, SCO 13-14-15
Sector 34-A, Chandigarh – 160022 INDIA
(Vacated on 30.12.2024 and presently
working from B-58, Ind.Area, Phase-7
Mohali, Punjab-160055)

CIN : L17115CH1990PLC010566

Phones : +91-172-4612000, 4613000, Fax : +91-172-4614000

E-mail : cshare@winsomegroup.com

Website : winsomeyarns.com



Date:- 09.12.2025

Script Code : 514348
Corporate Compliance & Listing Centre
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P. J. Towers
Dalal Street, Fort, MUMBAI-400001

Symbol : WINSOME
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex Bandra (E),
MUMBAI – 400051

SUB: NEWSPAPER PUBLICATION FOR THE POST-DISPATCH INFORMATION REGARDING THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING OF WINSOME YARNS LIMITED-

Dear Sir(s)/ Madam(s),


Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements published in Financial Express (English Version) and Jansatta (Hindi Version) on 09.12.2025 respectively, regard post-dispatch information regarding the 35th Annual General Meeting of the Company.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For WINSOME YARNS LIMITED
(Under CIRP)

ANIL KOHLI
Digitally signed
by ANIL KOHLI
Date: 2025.12.09
14:54:44 +05'30'

Anil Kohli, Designated Partner & Authorized Signatory
ARCK Resolution Professionals LLP acting as Resolution Professional
In the matter of M/s Winsome Yarns Limited
IBBI Regn No. IBBI/IPE-0030/IPA-1/2022-23/50013
AFA Valid upto : 31.12.2025



Utkarsh Small Finance Bank
Aapki Ummeed Ka Khaata
(A Scheduled Commercial Bank)

Zonal Office: 2nd Floor, 134 A Patliputra Colony , Opp- Polytechnic Gate Patna-800013
Registered Office: Utkarsh Tower, NH - 31 (Airport Road), Sehmampur, Kazi Sarai, Harhua, Varanasi, UP-221 105.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following borrowers have defaulted in the repayment of principle and interest of the Loan facility obtained by them from the Utkarsh Small Finance Bank and the loan has been classified as Non-Performing Assets (NPA). The Notices were issued to them under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement (Security) Interest Act, 2002 on their last known addresses as provided to the bank by them, that in addition thereto for the purposes of information of the said borrowers enumerated below, the said borrowers are being informed by way of this public notice

| Sr. No. | Name of the Branch | Name of the Account | Name of the Borrower/Guarantor (Owner of the Property) | N.P.A Date | Amount outstanding as on the date of Demand Notice |
|--|--------------------|--|--|------------|--|
| 1 | Noida | M/s Shaan Construction Co Account Number 1514060000 007853 | M/s Shaan Construction CoThrough Its Proprieter (Borrower) Mr.Asim S/O Mr.Rafakat Ali (Co-Borrower) Mr. Rafagaat Ali S/o Mr. Sadak Ali (Co-Borrower/Mortgager) Mrs. Robina Parveen W/o Mr. Asim (Co-Borrower/Mortgager) | 03-11-2025 | ₹ 1,64,55,539/- |
| Description of Property/ies: Property-1 All that part and parcel of the free hold Residential Property admeasuring 130 Sq Meeter or 155.48sq Yard, falling under khasra No-150,khata No-521KH,situated at Village-Rawal, Pargana-Dasna, Tehsil-Dhaultana Distt-Hapur Uttar Pradesh-Property Bounded by- East:Plot HamidNorth: NTPC Road West:Plot Basir South: Road Description of the Mortgaged Property-2 All that part and parcel of the free hold Residential Property Plot No-222, admeasuring 160.19Sq Yards or 133.94Sq Meeter, Out of khasra No-963/1, situated at Mansi Vihar Hadbast village-Dhargal, Pargana-Jalalabad, Tehsil & Distt-Ghaziabad Uttar Pradesh Property Bounded by- East:Road North: Other Land West: House No-221 South: Road | | | | | |
| 2 | Ghaziabad | Client Name- M/s.Mangat Ram Sharma & Sons Account Number- 1522060000 007938 & 1522060000 007960 | M/s.Mangat Ram Sharma & Sons Through Its Proprieter (Borrower) Mr. Surendra S/o Mr. Mangat Ram (Co-Borrower/Mortgager) Mrs. Beenu W/o Mr. Surendra (Borrower) Mrs. Pushpa W/o Mr. Mangat Ram (Co-Borrower/Mortgager) M/s L.d Hydraulic Equipment Ind, Through Its Proprieter (Co-Borrower) | 03-11-2025 | ₹ 1,36,50,674/- & ₹ 100216/- |
| Description of Property/ies: Property-1 All the part and parcel of the Commerical Property shop bearing area measuring 24Sq Yards i.e 20.07Sq Meeter out of khasra No-279 situated at Pakka Bagh to railway crossing Garh Road Hapur Tehsil & Distt-Hapur Uttar Pradesh -245101 Property Bounded by-East:Shop Raghuvir Saran North:Other Plot West:Property of kali South: Road Description of the Mortgaged Property-2 All the part and parcel of the Free Hold Residential Property bearing Plot area measuring 159Sq Yards out of khasra No-279 situated at Mohalla-Pannapuri, Tehsil & Distt-Hapur Uttar Pradesh -245101 Property Bounded by- East:Shop Raghuvir Saran North:Other Plot West:Road South: Other Plot | | | | | |
| The above borrower/s and/or their guarantors (wherever applicable) are advised to make the payments of outstanding dues within period of 60 days from the date of issuance of notice Under Section 13(2), failing which further steps will be taken after expiry of 60 days from the date of issuance of notice Under Section 13(2) as per the provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement (Security) interest Act, 2002. | | | | | |
| Date: 09-12-2025 Place: Uttar Pradesh Sd/- (Authorized Officer) Utkarsh Small Finance Bank Ltd. | | | | | |

WINSOME YARNS LIMITED
CIN: L17115CH1990PLC010566
Registered Office: SCO 191 192SECTOR 34 A CHANDIGARH
U T CH IN 160022 Website: www.winsomeyarns.com;
E-mail: winsomeyarns.ibt@gmail.com
Tel: +91-172-4612000

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, December 30, 2025 at 03:30 P.M. (through Video Conferencing (VC)/ Other Audio/Visual Mode (OAVM)) to transact the business specified in the Notice convening the said AGM. Pursuant to the General Circular issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021 and December 28, 2022; General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023; General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025, (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read with SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023; circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May13, 2022 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "SEBI Circulars") read applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 permitted the holding of the Annual General Meeting through video-conferencing / other audio visual means ("VC / OAVM"), without the physical presence of the Members, Directors or other eligible persons at a common venue. In compliance with the said Circulars, the AGM shall be conducted through VC / OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are mentioned in the Notice convening the AGM. The Company has on December 08, 2025, sent the emails through MUFG Intime India Pvt. Ltd. containing notice of the AGM to the members whose email IDs are registered with the Depositories or the Company. Furthermore, a letter containing the weblink of the Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent at the registered address of the shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s). Members, who have not received the Notice may download it from the website of the Company at www.winsomeyarns.com or may request for a softcopy of the same by writing to the Company at the above mentioned email id or registered office address of the Company. The aforesaid Notice of the AGM is also available on the websites of National Stock Exchange at <https://www.nseindia.com> and Bombay Stock Exchange at <https://www.bseindia.com> where the securities of the Company are listed. Shareholders whose email IDs are not registered, are requested to contact the Company at winsomeyarns.ibt@gmail.com or NSDL/CDSL (in case of dematerialized shares) or MUFG Intime India Pvt. Ltd. ("RTA") at swapann@in.mpms.mufg.com (in case of physical shares) and send a scanned copy of the request letter signed by all the shareholders along with self-attested copies of PAN Card and address proof to register their email ids. The instruction for attending the meeting through VC/OAVM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided in the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective DP. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013. The members holding shares in physical form are requested to consider converting their physical shares into dematerialized and eliminate all risks associated with the physical shares. Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standards on General meetings ("SS-2") the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote on the business as set forth in the AGM from a place other than the place of venue of AGM by electronic means. The Company has engaged services of MUFG Intime India Private Limited to provide remote e-voting facility. The remote e-voting period commences on Saturday, December 27, 2025 at 09:00 AM (IST) and shall end on Monday, December 29, 2025 at 05:00 PM (IST). Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-off date, being Tuesday December 23, 2025 may cast their vote by remote e-voting or may vote at the AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on cut-off date. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of voting through remote e-voting or at the AGM. A person who is not a member on the cut-off date shall treat this Notice for information purposes only. The procedure of e-voting/attending AGM is given in the Notice of AGM. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, December 23, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at swapann@in.mpms.mufg.com or winsomeyarns.ibt@gmail.com. Further, the facility of e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have already cast their votes through remote e-voting will be entitled to attend the AGM but shall not be entitled to vote again. CS Girish Madan (C.O.P. No. 3577) of M/s. Girish Madan and Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialization. Members are advised to dematerialize the shares held by them in physical form. Members may contact the Company in this regard. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulation, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, December 24, 2025 to Tuesday, December 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. In case of any queries, members may contact to RTA at email: swapann@in.mpms.mufg.com or on:- Tel: 022-49186000 or to the company, at email winsomeyarns.ibt@gmail.com. For Winsome Yarns Limited (Under CIRP) Sd/- **Manish Bagrodia** Director (Powers of Board suspended) **Date : December 09,2025** **Place : Chandigarh** **DIN:-00046944**

FORM NO.
[See Regulation 33(2)]
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER – /II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
NOTICE UNDER AND RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993

TRC/1857/2022
SBI (STATE BANK OF TRAVANCORE) Versus PRATIMA SHARMA AND ANR.
16.10.2025

To
The Concerned Officers :-
1. DDA/ DEVELOPMENT AUTHORITY (CONCERNED AREA)
2. MUNICIPAL CORP./ JAL BOARD (CONCERNED AREA)
3. ELECTRICITY DEPARTMENT (CONCERNED AREA)
4. INCOME TAX/ SALES TAX DEPTT. ETC. (CONCERNED AREA)
It is being proposed to auction the following property for recovery of the dues of the CH Bank / CH Financial Institution :-
Specification of property:
PROPERTY BEARING RESIDENTIAL FLAT NO. 95 ENTIRE 2ND FLOOR, POCKET-11, SECTOR-24, ROHINI DELHI.
2. You are hereby directed to disclose your dues, if any, on the said property within one month from the date of issue of this notice, failing which, it shall be presumed that there are no dues on the said property towards your department.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 16/10/2025.
NIRANJAN SHARMA, Recovery Officer-II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 1)

FORM NO.14 [See Regulation 33(2)]
By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 2)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
DEMAND NOTICE
NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.
RC /88 /2024
Date: 05.08.2025

CENTRAL BANK OF INDIA
Versus
M/S ESHAN ENTERPRISES AND ORS.

To,
(CD 1.) M/S ESHAN ENTERPRISES AND ORS.
AKHILESH GUPTAS/ O SH. JANARDAN PRASAD
48, 2 Khasra No. 15, 18, Street No. 2 Main Ekta Gali, Johripur East, Delhi-110094. **Also At:** B 27 Mata Wali Gali, Johripur Delhi.
(CD 2.) INDRA DEVI W/O SH. CHARAN SINGH
House No. 334 Village Astauli 2 Bankaur Pargana Sikandarabad Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-203201

1. This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 2)** in **OA/600/2021** an amount of **Rs.38,90,745/- (Rupees Thirty Eight Lakh Ninety Thousand Seven Hundred Forty Five Only)** along with pendente lite and future interest @11.60% Simple Interest Yearly w.e.f. **26/10/2021** till realization and costs of **Rs.41,000/- (Rupees Forty One Thousand Only)** has become due against you (Jointly and severally/Only/Limited).
2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.
4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **16/12/2025 at 10:30 A.M.** for further proceedings.
5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings.
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **05/08/2025.**
Recovery Officer ,
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 2)
COPY TO: CENTRAL BANK OF INDIA,
66, Janpath Branch, New Delhi
You are directed that the payment made, if any, by the Certificate Debtor(s) be credited to the consolidated account of all debts due in this case from the Certificate Debtor(s) and the Recovery Officer kept posted with the payment position regularly.
The consolidated account so maintained will be subject to the verification of the Recovery Officer. You are further directed to submit an up to date statement of the total claim in respect of the above matter and full details of property particulars wherefrom the recovery of the debt is to be made.
Note: Strike out whichever is not applicable.

NOTICE UNDER REGULATION 37A OF IBCI (LIQUIDATION PROCESS), REGULATIONS, 2016 FOR ASSETS OF HI TECH GRAIN PROCESSING PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) ("Company") (CIN: U15314DL2001PTC113420)
[Assignment under Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 ("IBC")]
Offers are invited from Interested Parties / Investors for Assignment of Not Readily Realizable Assets ("NRA") of Hi Tech Grain Processing Private Limited-In Liquidation, including litigation and consequential rights in avoidance application pending adjudication with Hon'ble NCLT, under Regulation 37A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 on: "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS"
The Details of the Not Readily Realizable Assets offered for Assignment are as under:
LIST OF NOT READILY REALISABLE ASSETS

| PARTICULARS | UNDERLYING AMOUNT (INR)* |
|--|--------------------------|
| Assignment of litigation rights and consequential rights in outcome thereof, for Application for Avoidance of Transactions filed Under Section 43, 45 & 66 of IBC, 2016 filed by Resolution Professional before Hon'ble NCLT Bench VI, New Delhi, in IA 4659/ 2020 in the matter CP (IB) 2158/ND/2019 | Approx. 415.43 Crores |
| Assignment of litigation rights and consequential rights in outcome, for Application filed by Hitech Grain Processing Pvt. Ltd. for Recovery from Debtor (Hitech Grain Vs. MSGAII Trading International Pvt.Ltd. & others before ADJ, Rohini, Delhi) | Approx. 0.91 Crores |
| Assignment of Rights for following financial assets of the Company (all financial assets except cash and bank balance(s) in the account of company) as appearing in the Audited Balance Sheet as on 31.03.2022 and Provisional Balance Sheet as on 13.04.2022 (liquidation commencement date), including the rights for pursuing any legal recourse and consequential rights in the outcome thereof: | Approx. 267.48 Crores |

| Particulars | Value in Cr. (approx.) |
|-------------------------------|------------------------|
| Non-Current Assets | |
| Non-Current Investments | 0.05 |
| Long Term Loans and Advances | 0.96 |
| Current Assets | |
| Trade Receivable | 256.91 |
| Short Term Loans and Advances | 9.55 |
| Total Book Value | 267.48 |

Assignment of litigation rights and consequential rights in outcome, for Two Applications filed by Hitech Grain Processing Pvt. Ltd. against Income Tax Department seeking Refund adjusted during CIRP / Liquidation period, along with due Interest (IA 4329 of 2023 for approx. Rs. 77 Lakhs and IA 137 of 2025 for approx. Rs. 81 Lakhs)
***all Duties / Taxes Extra, as applicable**
Interested parties may submit their offers along with **EMD (Refundable)** equivalent to 10% of the Offered Value, to the undersigned latest by, **24th December 2025**. The assignment will be subject to the Provisions of the IBC 2016 read with Regulations made thereunder and the Process Information Document dated 09.12.2025. For further details, please refer to the Process Information Document uploaded on website www.arck.in which may also be obtained by writing an email to insolvency@arck.in Or chanchalduaco@gmail.com.
Sd/-
Chanchal Dua
M - 9958990842
Liquidator- Hi Tech Grain Processing Private Limited
IBBI Reg. No- IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-18/10821
AFA Valid upto 31-12-2025
Regd. Address & Email ID:
5/36, First Floor, Ramesh Nagar, New Delhi – 110015
Email: chanchalduaco@gmail.com
Correspondence Address & E-mail ID:
409, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001
Ph: 011-45101111, E Mail: insolvency@arck.in
Date: 09.12.2025
Place: New Delhi

Branch: Dilkhusa Market, Civil Lines, Jalandhar-144001

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with **Rule 3** of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated on dates under 13(12) mentioned against their names. Calling upon the borrowers to repay the amount mentioned hereinafter within 60 days from the date of receipt of said notice.

The Borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under **sub section (4) of Section 13** of the said Act read with Rule 8 of the **Security Interest (Enforcement) Rules 2002** on the dates stated against each account.

The Borrower/Guarantor/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount mentioned against their name Plus interest and other charges accrued thereon till realization.

The Borrower's attention is invited to sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| Name of Account Borrowers & Guarantors | Description of Property | Date of Possession | Date of Demand Notice | Recoverable amount as per Demand Notice |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|
| Borrower : M/s IBG (India) Pvt. Ltd., Mrs. Mandeep Kaur W/O Manjeet Singh and Mr. Surjit Singh S/o Sh. Bachint Singh Near Hemkunt Public School Vill. Raipur Rasulpur, Pathankot Road, Tehsil & Dist Jalandhar Hypothecation Agreement Dated 24.09.2019. | Debts at M/S IBG (India) Pvt. Ltd. Near Hemkunt Public School Village Raipur Rasulpur, Pathankot Road, Tehsil & Dist Jalandhar Hypothecation Agreement Dated 24.09.2019. | 04.12.2025 | 02.09.2025 | Rs. 34,90,585.41/- (Rupees Thirty Four Lac ninety thousand five hundred eighty five and forty one paise only) plus interest and other costs, charges and expenses w.e.f. 31-08-2025. |

DATE: 09.12.2025**PLACE: JALANDHAR****AUTHORISED OFFICER**

YES / BANK

Registered and Corporate Office: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai – 400055 India. Website: www.yesbank.in
Email: communications@yesbank.in, CIN: L65190MH2003PLC143249

[Rule – 8(1)] POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of YES Bank Ltd. under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financials Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 and in exercise of powers conferred under Sec.13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices calling upon the respective borrowers mentioned hereunder to repay the amounts mentioned in the respective notices U/s.13(2) of the said Act within a period of 60 days. The respective borrowers having failed to repay the said amounts, notice is hereby given to the borrowers and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Sec.13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules. The respective borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the said properties and any dealing with these properties will be subject to the charge of the YES Bank Ltd. for the respective amount mentioned herein below along with interest thereon at contracted rate.

| Name of Borrowers | Details of secured asset | Date of Notice U/s.13(2) NPA Date | Notice Amount (Rs.) |
|---|--|-----------------------------------|--|
| (1) Nimesh Kumar Roy Having New H No.111, Gobindgarh Road, Nichhi Mangali, Nichhi Mangali Enclave, Mangali Nichhi, Ludhiana Punjab, 141123. Also At: Room No.105, 1st Floor, PSWC CFS, Focal Point, Ludhiana, Punjab, 141010 (Borrower), (2) Kiran Devi Having Address At: H No.111, Gobindgarh Road, Nichhi Mangali, Nichhi Mangali Enclave, Mangali Nichhi, Ludhiana, Punjab, 141123. Product & Loan No. Home Loan Facility AFH002301537481 | All That Piece And Parcel Of The Immovable Property Bearing House No 111, Area 82 Sq Yrds, Khasra No. 16/111, 16/123, 16/119, 16/20, 16/21, 16/22, 17/115, 17/16, 17/24, 17/25, 17/26, 17/28, 17/29-27/1/11, 27/22, Khata No. 19/20-2021, As Per Jamanandi Year 2012-13, Village Mangli Enclave, Near Nichi, Hadbast No. 239, Mandli Enclave, Tehsil Sahnewal District, Ludhiana Owned By Kiran Devi | 03-July-2025 | Rs. 1,031,018.62 (Rupees Ten Lakh Thirty-One Thousand Eighteen and Sixty-Two Paise Only) 3-Dec-2025 (Symbolic Possession) |
| (1) Manpreet Singh S/o Balbir Singh Having Address at: House No. E-10-1046, 2 Ext. Basant Vihar, Noorwala Road, Bahadarke, Ward No. 2, Ludhiana-141008. Also At Kakowal Pind, landmark Essar Petrol, Ludhiana. (Borrower) (2) Baljinder Kaur W/o Balbir Singh Having Address at: House No. 10-1046-P.NO. 54, Basant Vihar, Noorwala Road Ext., Bahadarke, Ludhiana -141008. Product & Loan No. Micro LAP Term Loan Facility MIC002301301149 | All That Piece And Parcel Of The Immovable Property Bearing Property No. 54 Measuring 100 Sq. Khasra No. 10/12, Khata No. 36/39, Jamabandi Year 2002-2003, Hadbast No. 79, Situated At Village Phambra, Ludhiana, Tehsil And District Ludhiana Owned By Baljinder Kaur, Bounded As: East: Neighboring 45 Feet, West: Neighboring 45 Feet, North: Street Width 20 Feet South: Neighboring 20 Feet. | 07-July-2025 | Rs. 1,211,185.73/- (Rupees Twelve Lakh Eleven Thousand One Hundred Eighty-Five and Seventy-Three Paise Only) 3-Dec-2025 (Symbolic Possession) |
| (1) Rama Shankar Sharma S/o Ram Saroop Sharma Address: House No-8153 Durgapuri 22 ft. road Halibawal Kalan Ludhiana 141001 (2) Kiran Kumari W/o Rama Shankar Sharma Address : House No B-34/8153 22 feet Road, Near Ranjit School Durga Puri Halibawal Kalan Ludhiana Punjab 141001. Product & Loan No. Home Loan Facility AFH002301693698 | All piece and parcel of non-agricultural property i.e. House No M.C. no B-34/8880/798 UID no B034-04200-001, property measuring 100 Sq Yds comprised in khasra No 10/24/12 Khatta no. 76/76 as per jamabandi for the year 2011-12 situated at village Halibawal Kalan H.B no 102 Abaddi known as New Deep Nagar Near Chuharpur road the & Distt Ludhiana Punjab. | 14/05/2025 | Rs-30,61,946.27 /- (Rupees Thirty lakhs sixty one thousand nine hundred seventy six & twenty seven paise Only) 3-Dec-2025 (Symbolic Possession) |
| (1) Suresh Kumar C/o Prem Kumar Address: House No 391 Near Elite tower Kalia Colony Phase 2 Jalandhar 144008 (2) Poonam C/o Suresh Kumar Address : House No 391 Near Elite tower Kalia Colony Phase 2 Jalandhar 144008. Product & Loan No. Micro LAP Term Loan Facility MIC007101755846 | All piece & Parcel of Non agricultural Property i.e. Shop Measuring 01 Marla 28 Sq Ft, means 30 Sq Ft, Khasra No 11/23, 24/1, 5/3/1, 4/1, 5/2/1 at Wajla Parshu Ram Nagar Rehru Jalandhar, Teh & Distt Jalandhar. | 17-Jan-2025 | Rs 16,15,172.52/- (Rupees Sixteen lakhs fifteen thousand one hundred seventy two & fifty two paise Only) 4-Dec-2025 (Physical Possession) |

Please note that under Section 13 (8) of the Act, in case if the dues together with all costs, charges and expenses incurred by us are tendered at any time before the date of publication of the notice for public auction/ Sale then Sale shall not be concluded and secured asset shall not be sold or transferred by us, and no further step shall be taken by us for transfer or sale of that secured asset.

Date: 09/12/2025**Place: Ludhiana****Sd/- (Authorized Officer)****YES BANK LIMITED**

BAID FINSERV LIMITED
Registered and Corporate Office: Baid House, 2nd Floor, 1, Tara Nagar, Ajmer Road, Jaipur- 302006 (Rajasthan); Tel: + 91 9214018877; CIN: L65910RJ1991PLC006391; Website: www.baidfinserv.com; Email: baidfinance@baidgroup.in; Company Secretary & Compliance Officer: Surbhi Rawat, Tel.: +91-8503085889; Email: cs@baidgroup.in

PROMOTERS OF OUR COMPANY: PANNA LAL BAID AND RAKESH BAID

ISSUE OF UP TO 3,00,17,075 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 2 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS.10PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS.8 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO Rs. 3001.71 LAKH ON A RIGHTS BASIS ("ISSUE SIZE") TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 4 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MONDAY, NOVEMBER 17, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 79 OF THE LETTER OF OFFER.

We are immensely thankful to all our Shareholders and Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Tuesday, November 25, 2025 and closed on Wednesday, December 03, 2025. Out of the total 966 Applications for 32369886 Rights Equity Shares through the application supported by blocked amount ("ASBA"). 204 Applications for 43060 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer dated November 11, 2025 ("Letter of Offer"). The total number of valid Applications received were 762 for 32324778 Rights Equity Shares, which was 30017075 of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of allotment was finalized on December, 08, 2025 by the Company in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee has in its meeting held on Monday, December 08 2025, approved the allotment of 30017075 fully paid up Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications after technical rejections have been considered for allotment. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

| Category | No. of valid Applications (including ASBA applications) received | No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlements(A) | No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional Rights Equity Shares applied (B) | Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B) |
|------------------------------|--|--|---|--|
| Eligible Equity Shareholders | 752 | 13867152 | 10071086 | 23938238 |
| Renounees | 10 | 187580 | 5891257 | 6078837 |
| Total | 762 | 14054732 | 15962343 | 30017075 |

2. Information regarding Applications received (Including ASBA application received):

| Category | Applications received | Rights Equity Shares applied for | Rights Equity Shares allotted | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|--------|
| | Number | % | Number | Value (₹) | % | Number | Value (₹) | % |
| Eligible Equity Shareholders | 956 | 98.97 | 23983346 | 23983346.00 | 74.09 | 23938238 | 239382380.00 | 79.75 |
| Renounees | 10 | 1.03 | 8386540 | 8386540.00 | 25.91 | 6078837 | 60788370.00 | 20.25 |
| Total | 966 | 100.00 | 32369886 | 323698860.00 | 100.00 | 30017075 | 300170750.00 | 100.00 |

The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to Self-Certified Syndicate Banks (SCSBs) on Monday, December 08, 2025. The Company has submitted the listing application on Monday, December 08, 2025 to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Ltd. ("NSE"). The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Issue is expected to commence on Wednesday, December 10, 2025, subject to receipt of trading permission from BSE and NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE nor does it warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of disclaimer clause of the BSE under the heading "Other Regulatory and Statutory Disclosures-Disclaimer Clause of "BSE" on page 76 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of disclaimer clause of the NSE under the heading "Other Regulatory and Statutory Disclosures-Disclaimer Clause of "NSE" on page 75 of the Letter of Offer. The investors may contact the Registrar to the Issue in case of any query(ies)/grievance(ies) including credit of rights equity shares and contact respective Self-Certified Syndicate Banks (SCSBs) for any query regarding unblocking of funds.

REGISTRAR TO THE ISSUE
MCSA
MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED
Registered Office: 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase – 1, New Delhi – 110020, India Telephone: 011-41406149
Facsimile: NA
E-mail: admin@mcsregistrars.com; Website: www.mcsregistrars.com
Investor grievance: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com • **Contact Person:** Subodh Vichare
SEBI Registration No: INR000004108 • **Validity of Registration:** Permanent

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY .

FOR BAID FINSERV LIMITED
SD/-
SURBHI RAWAT
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
MEMBERSHIP NUMBER: A49694

DATE: DECEMBER 08, 2025
PLACE: JAIPUR

Chandigarh

epaper.financialexpress.com

